

## प्रेस नोट दिनांक- 12-01-2021

(1). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बृजेश पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 160/2020 धारा 498ए/304बी भादवि व ¼ डीपी एक्ट के वाँछित अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र सुधीर सोनकर निवासी सरधुवा राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री बृजेश पाण्डेय थाना राजापुर
2. आरक्षी विनोद यादव

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री व निर्माण के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दीपक यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामकेश उर्फ रिंकू पटेल पुत्र फूलसिंह निवासी मलवारा थाना राजापुर को 20 अदद ठेका शराब मस्तीहू नाजायज के साथ खटवारा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 13/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी-

20 अदद ठेका शराब मस्तीहू नाजायज

### बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दीपक यादव थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया

(3). आज दिनांक-12.01.2021 को स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पटेल तिराहा पर सभी को शपथ दिलायी गयी। इसके पश्चात महोदय द्वारा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साइकिल रैली पटेल तिराहा से ट्राफिक तिराहा, एल0आई0सी0 तिराहा होते हुए पटेल तिराहा पर समाप्त हुई।

इस अवसर पर श्री रजनीश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री रामप्रकाश क्षेत्राधिकारी राजापुर, श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी, श्री घनश्याम पाण्डेय प्रभारी यातायात, उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव उ0नि0 यातायात एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में पीआरवी 2028 एवं वरि0उ0नि0 थाना मानिकपुर द्वारा कुमारी दीपिका तोमर पुत्री लोकेश तोमर निवासी बढला थाना मुन्डली जनपद मेरठ को परिजानों के सुपुर्द किया गया।

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2028 थाना मानिकपुर अंतर्गत दिनांक 11/01/2021 को समय 10:39 बजे इवेंट संख्या 2656 द्वारा घटनास्थल मानिकपुर राधा कृष्ण मंदिर के पास थाना मानिकपुर से कॉलर द्वारा सूचना दी गयी कि एक लड़की मिली है उम्र 10 से 12 साल है कुछ बता नहीं पा रही है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पीआरवी कर्मियों को कॉलर ने बताया कि एक लड़की मिली है, लड़की कुछ बता नहीं पा रही है। लड़की की उम्र लगभग 12-13 साल है। पीआरवी कर्मियों को लड़की ने अपना नाम मानसी पुत्री लोकेश तोमर निवासी खुर्जा जिला बुलंदशहर बताया है पीआरवी कर्मियों ने लड़की को सकुशल लाकर थाना मानिकपुर में सुपुर्द किया गया। थाना पुलिस पीआरवी के प्रयास से लड़की के पिता लोकेश तोमर के मोबाइल नंबर 8273323187 पर सम्पर्क किया गया तो पिता ने बताया कि मेरी लड़की का नाम दीपिका पुत्री लोकेश तोमर निवासी बढला कैथवारा थाना मुन्डली जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। लोकेश तोमर जी को वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह ने थाना मानिकपुर बुलाया एवं बालिका

को उनके सुपर्द किया गया। परिजनों द्वारा पुलिस के इस कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की एवं पुत्री को पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लौटी।

**पीआरवी स्टाफ:-**

कमांडर – मुख्य आरक्षी मोहम्मद फरीद

पायलट - आरक्षी रामाज्ञा यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती राजकुमारी पत्नी धीरज पाण्डेय निवासी इन्द्रनगर कस्बा व थाना मानिकपुर चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति व परिवारीजन उससे दहेज की मांग करते हैं एवं घर से निकाल दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव एवं मुख्य आरक्षी अरूण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 12.01.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 12.01.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा इंडियन बैंक, आर्यवर्त बैंक, बिसंडा तिराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुन्गी चौराहा, भैरोपागा, कसहाई रोड में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी व ग्राम भेडा में व स्व० दादू भाई इंटर कॉलेज में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ ग्राम कोलमजरा ग्राम सिंगल पुरवा ग्राम वसुनिया बरगढ़ मोड़ में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भारतपुर, घूरेटनपुर, बगैहा मे भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।